




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

आधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 507]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 30, 1979/अग्रहायण 9, 1901

No 507]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 30, 1979/AGRAHAYANA 9, 1901

इस भाग में सिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1979

का० प्रा० 769(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबंधों के अनुसरण में, आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से, निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि इसकी तारीख 3 अक्टूबर, 1979 की अधिसूचना संख्या 434/प्रा० प्र०/79(1) में निम्न-लिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में सलग सारणी के स्तम्भ 2 में, मद संख्या 17 के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "विशेष कलेक्टर, नागार्जुन सागर परियोजना, विजयपुरी उत्तर, हिल कोलोनी कलेक्टर के कार्यालय में स्थित कैम्प, गुंटूर" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[संख्या 434/प्रा० प्र०/79(1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd November, 1979

S.O. 769(E).—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951),

916 GI/79

the Election Commission, in consultation with the Government of Andhra Pradesh, hereby directs that the following amendment shall be made in its notification No. 434/AP/79 (1), dated 3rd October, 1979, namely—

In column 2 of the Table appended to the said notification, for the existing entry against item 17, the entry "Special Collector, Nagarjunasagar Project, Vijayapuri North, Hill Colony, Camp at Collector's Office, Guntur" shall be substituted."

[No. 434/AP/79(1)]

का० प्रा० 770(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि इसकी तारीख 3 अक्टूबर, 1979 की अधिसूचना संख्या 434/प्रा० प्र०/79(2) में निम्न-लिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में सलग सारणी के स्तम्भ 2 में मद संख्या 33 के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "1 संयुक्त कलेक्टर, मेडक स्थान मंगारेड्डी" और "2 कलेक्टर (राजस्व) का निजी सहायक, मंगारेड्डी" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[संख्या 434/प्रा० प्र०/79(2)]

आदेश से,

के० गणेशन, सचिव, I.

S.O. 770(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its notification No. 434/AP/79(2), dated 3rd October, 1979, namely—

In column 2 of the Table appended to the said notification, for the existing entry against item 33, the entries “1. Joint Collector, Medak at Sangareddy” and “2. Personal Assistant to Collector (Revenue), Sangareddy” shall be substituted.

[No. 434/AP/79(2)]

By order,
K. GANESAN, Secy.